

Certified that the insecticide **Acetamiprid 20% SP** has been registered in the name of the particulars are specified below:

REGISTRATION UNDER SECTION 9(4) OF THE INSECTICIDES ACT, 1968

Chemical Composition :

Acephate	a.i	75.00 % w/w
Aerosol OTB	(Sodium Dioctyl sulphosuccinate)	0.5 % w/w
Fine silica (Hisil 233 or Ultrasil VN 3)	Q.S	
Total :		100.000 % W/W

Direction Of Use

Please read enclosed leaflet before use

Precautions

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

AntiDote

1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment.
2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes

Recommendations

It is recommended to control jassid and bollworms of cotton, aphid of safflower.

Manufactured By :

M/s Agri Nova Pesticides
Uma Industrial Estate, Post- Vasana, (Iyava) Taluka:- sanand,
Distt:- Ahmedabad- 382170 (Gujarat)
Ahmedabad Ahemdabad Gujarat 382170

Manufacturer Premises :

Uma Industrial Estate, Post- Vasana, (Iyava) Taluka:- sanand,
Distt:- Ahmedabad- 382170 (Gujarat)

CIR-100031/2010-Acephate SP (309)-2

Acephate 75% SP
Systemic and Contact Insecticide

एसिफेट 75 प्रतिशत एस.पी.

अन्तर्वाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक



बच्चों की पहुँच से दूर रखें

Keep out of reach of children.

सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

Regn. No. रजि. नं. _____

Mfg. Lic. No. मैनयु. ला. नं. _____

Batch No. बैच नं. _____

Mfg Date मैनयु. ता. _____

Exp. Date खत्म होने की तारीख _____

Net Content/Volume शुद्ध भार/आयतन _____

Max. Retail Price अधिकतम खुदरा मूल्य _____



**AUTHENTICATED
APPROVED**

रसायनिक संरचना :

एसिफेट	सक्रिय तत्व	75.00 % अक्षर/अक्षर
एयरोसोल ओ.टी.बी.	(सोडियम डायोक्टाइल सल्फोसक्सिनेट)	0.5 % भार/भार
फाइन सिलिका-हिसिल 233 या अल्ट्रासिल वी.एन.3)	पर्याप्त मात्रा	%
योग :		100.000%भार/भार

उपयोग के लिये निर्देश :

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :

1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
2. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें।
3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
5. छिड़काव के समय धूमपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विषनाशक :

1. रोगी को तुरन्त एट्रोपिन दीजिए और इसकी 2से 4 मिग्रा. तक की खुराक 5 से 10 मिनट के अन्तराल पर अन्तःशिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक 25 से 50 मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती हैं। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती हैं। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी हैं।
2. 1 से 2 ग्राम 2 पी.ए.एम. 10 मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्तःशिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे 10 से 15 मिनट में देना चाहिए।

उपयोग :

इसका उपयोग कपास के तेल और डोंडे की सुडियों तथा कुसुम के माहु के रोक थाम के लिए किया जाता है।

उत्पादन परिसर :

CIR-100031/2010-Acephate SP (309)-2
Acephate 75% SP

(Systemic and Contact Insecticide)

It is a soluble powder containing Acephate ingredient 75% w/w and balance other relevant ingredients. It is used to control Jassids and bollworms and Aphid on safflower and cotton crops.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water in water (liter)	Waiting Period between last spray to harvest days
		AI gm	Formulation gm		
Cotton	Bollworm	584	780	500-1000	15
	Jassid	292	390	500 - 1000	15
Safflower	Aphid	584	780	500-1000	15
Paddy	Stem borer, Leaf folder, Plant hopper & GLH	500-750	666-1000	30-500	15

Direction of Use

Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Time of Application

Precaution

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning

Headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, diarrhoea, convulsions, excessive sweating, lacrimation and salivation may occur.

First Aid

1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.


Antidote

1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment.
2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes.

Disposal Of Used Container

- 1 It shall be the duty of manufactures formulators of herbicide and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water. pollution.
- 2 The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
- 3 Packages shall be broken and buried away from habitation.

**AUTHENTICATED
 APPROVED**



Storage Conditions

1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide
2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapours

Chemical Composition:

Acephate	a.i	
Aerosol OTB	(Sodium Dioctyl sulphosuccinate)	75.00 % w/w
Fine silica (Hisil 233 or Ultrasil VN 3)	Q.S	0.5 % w/w
		Total: 100.000% w/w

Manufactured By:

M/s Agri Nova Pesticides

Ahmedabad Ahmedabad Gujarat 382170

**AUTHENTICATED
APPROVED**

